

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 18 जनवरी 2023

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?

- A) दिल्ली
- B) गुजरात
- C) केरल
- D) महाराष्ट्र

सही उत्तर: C

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और कहा कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पिछले साल जुलाई में , केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया था जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा थी।

प्रश्न-2

निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) जर्मनी
- C) भारत
- D) रूस

सही उत्तर: C

निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पहली बार पिछले साल ऑटो बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया और वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। देश में कम से कम 4.25 मिलियन नई कारें बेची गईं, जो जापान की 4.2 मिलियन बिक्री से अधिक थीं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 18 जनवरी 2023

प्रश्न-3

ODP कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को अपने प्राथमिक IT पार्टनर के रूप में चुना है?

- A) कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस
- B) HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
- C) इंफोसिस लिमिटेड
- D) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

सही उत्तर: B

HCL टेक्नोलॉजीज एंड-टू-एंड IT ऑपरेशंस के लिए ODP का IT पार्टनर होगा और इसके ऑफिस डिपो , ODP बिजनेस सॉल्यूशंस और Veyer बिजनेस यूनिट्स में ODP की बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए एंटरप्राइज-वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रदान करेगा।

प्रश्न-4

खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) के 5वें संस्करण के शुभंकर निम्नलिखित में से कौन से हैं?

- A) अम्मू और रोंगमोन
- B) आशा और मोगली
- C) जया और विजय
- D) वीरा और धाकड़

सही उत्तर: B

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने थीम गीत के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG)-2022 के शुभंकर आशा और मोगली और इसके स्मार्ट टॉच 'अमरकंटक' का विमोचन किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 18 जनवरी 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर इवेन प्रिटोरियस ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) न्यूजीलैंड
- C) दक्षिण अफ्रीका
- D) जिम्बाब्वे

सही उत्तर: C

दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी इवेन प्रिटोरियस ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। प्रिटोरियस ने 30 टी20, 27 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 1895 रन बनाए और 77 विकेट झटके।

प्रश्न-6

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) कब मनाया गया?

- A) 05 जनवरी
- B) 06 जनवरी
- C) 08 जनवरी
- D) 09 जनवरी

सही उत्तर: D

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वह तारीख थी जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 18 जनवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किस राज्य में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया?

- A) गुजरात
- B) कर्नाटक
- C) मध्य प्रदेश
- D) राजस्थान

सही उत्तर: B

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। अधिकारियों के अनुसार प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान युवाओं को सामने लाने के लिए हर साल महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉलर गैरेथ फ्रैंक बेल ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है?

- A) फ्रांस
- B) इंग्लैंड
- C) वेल्स
- D) पुर्तगाल

सही उत्तर: C

गैरेथ बेल, वेल्स पुरुषों के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर और रियल मैड्रिड के साथ पांच बार चैंपियंस लीग विजेता, ने फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ब्रिटेन के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक बेल ने लॉस एंजिल्स FC में अपने अनुबंध के बीच में ही खेल से दूर हो गए, जो इस गर्मी में समाप्त होने वाला था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 18 जनवरी 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किस शहर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया?

- A) भोपाल
- B) जयपुर
- C) चेन्नई
- D) अहमदाबाद

सही उत्तर: B

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में जयपुर में दो दिवसीय 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का उद्घाटन किया। इससे पूर्व राजस्थान में यह सम्मेलन वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था।

प्रश्न-10

DRDO ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II का सफल परीक्षण कहाँ किया?

- A) गुजरात
- B) कर्नाटक
- C) ओडिशा
- D) राजस्थान

सही उत्तर: C

DRDO द्वारा 10 जनवरी, 2023 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल , पृथ्वी-II का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया।